

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2016—आषाढ़ 1, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक-बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला बैतूल, भोपाल, दतिया, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना एवं ग्वालियर के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

मासम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवालीं चयनित फसलों की					
जिला	तहसील	राजनिष्पत्तीका नाम	पटवारी हल्का नं०	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
मूल अधिसूचना क्रमांक 189 में निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शित फसलों को जोड़ा जाता है।										
बैतूल	आमला	आमला	1.	ठानी					मक्का	
			6	बोड़खी			सोयाबीन			
			7	हसलपुर			सोयाबीन			
			10	अम्बाड़ा					मक्का	
			11	बोथिया ब्राम्हावाड़ा					मक्का	
			14	रमली			सोयाबीन			
			16	रम्भाखेड़ी					मक्का	
			19	खापाखतेड़ा					मक्का	
			20	बोरीखर्द					मक्का	
			25	लिखड़ी			सोयाबीन			
			27	नररा					मक्का	
			28	जमदेहीखर्द					मक्का	
			30	रानीडोगरी			सोयाबीन			
			32	देवगांव					मक्का	
			33	जम्बाड़ाबुजुर्ग					मक्का	
			34	जम्बाड़ाखुर्द			सोयाबीन		मक्का	
	आमला	बोरदेही	42	बारछी					मक्का	
			43	सोमलापुर			सोयाबीन		मक्का	
			44	कुटखेड़ी			सोयाबीन		मक्का	
			45	मालेगांव					मक्का	
			46	हरन्या					मक्का	
			47	बामला					मक्का	
			48	जामुनबिछवा			सोयाबीन		मक्का	
			49	कोठिया रैयत			सोयाबीन		मक्का	
			50	कलमेशवरा			सोयाबीन		मक्का	
			51	खाडेपिपरिया			सोयाबीन			
			52	दीपा मण्डई			सोयाबीन		मक्का	
			53	बोरदेहि					मक्का	
			54	इटावा					मक्का	
			55	घटावाड़ीकलां					मक्का	
			56	हथनोरा					मक्का	
			57	तरोडाकलां					मक्का	
			59	डेहरी					मक्का	
			60	कुजबा					मक्का	
			61	खेडलीबाजार					मक्का	
			67	बिसखान			सोयाबीन			
बैतूल	घोड़ाडोगरी	घोड़ाडोगरी	18	बासपुर					मक्का	
			19	रतामाटी			सोयाबीन			
			20	घोड़ाडोगार	धान सिंचित		सोयाबीन		मक्का	
			22	पचामा			सोयाबीन			
			23	खारी			सोयाबीन			
			24	खंदारा			सोयाबीन			
			31	मेटापानी			सोयाबीन			
			32	डोलिढाना			सोयाबीन			
			35	महेन्द्रवाड़ी	धान सिंचित		सोयाबीन			

			36	पांढरा	धान सिंचित		सोयाबीन		
			37	सुखढाना			सोयाबीन		
			38	सलेया			सोयाबीन		
			44	बाकुड	धान सिंचित			मक्का	
			47	घसेड	धान सिंचित				
			49	कोलगांव	धान सिंचित				
			51	छुरी	धान सिंचित				
			52	जुवाडी	धान सिंचित				
			53	रतनपुर	धान सिंचित		सोयाबीन		
			54	मेहकार	धान सिंचित		सोयाबीन		
			55	कुही	धान सिंचित		सोयाबीन		
			56	रानिपुर	धान सिंचित		सोयाबीन		
			57	अनकावाडी	धान सिंचित		सोयाबीन	मक्का	
			58	चिखली आमढाना	धान सिंचित		सोयाबीन		
घोड़ाडोगरी	चोपना		2	बजारीढाल	धान सिंचित				
			3	सातलदेही	धान सिंचित				
			5	शकिगढ़	धान सिंचित				
			6	भोगईखापा	धान सिंचित				
			7	आमढारनारियत	धान सिंचित				
			8	नुतनडंगा	धान सिंचित				
			9	झोली	धान सिंचित				
			10	चोपना-1	धान सिंचित				
			11	आमडाह	धान सिंचित				
			12	बटकीडाह	धान सिंचित				
			13	हीरापुर-1	धान सिंचित				
			14	गोल्हई बुजुर्ग	धान सिंचित				
			15	गोपिनादपुर	धान सिंचित				
			16	बादलपुर	धान सिंचित				
			17	सीवनपट	धान सिंचित				
बैतूल	चिचोली	चियोली	1	गवासन			सोयाबीन		
			4	खपरिया	धान असिंचित				
			5	बल्लौर	धान असिंचित				
			7	कुरसना			सोयाबीन		
			10	कामठाना	धान असिंचित		सोयाबीन		
			11	बेला	धान असिंचित		सोयाबीन	मक्का	
			14	चुनागोसाई			सोयाबीन		
			16	उचागोहान			सोयाबीन		
			17	हरदु			सोयाबीन	मक्का	
			19	आलमपुर	धान असिंचित				
			20	गोधना	धान असिंचित		सोयाबीन	मक्का	
			21	हरावाडी	धान असिंचित		सोयाबीन	मक्का	
			22	गोण्डूमण्डई			सोयाबीन		
			25	देवपुर कोटमी	धान असिंचित			मक्का	
			26	विधवा			सोयाबीन	मक्का	
			29	निवारी				मक्का	
			30	रोझडा			सोयाबीन		
			31	मलामपुर	धान असिंचित			मक्का	
			32	कटकूही			सोयाबीन		
			33	जोगली				मक्का	
			34	बोरी			सोयाबीन	मक्का	

बैतूल	बैतूल	बैतूल बाजार	62	चारबन		सोयाबीन		
	बैतूल	खोडी सावलीगढ़	1	बोरगांव	धान असिंचित			मक्का
			6	चान्दबिहड़ा		सोयाबीन		
			7	रतामाटी बुजुर्ग		सोयाबीन		
			9	सिल्लोट	धान असिंचित			
			10	कल्याणपुर	धान असिंचित			मक्का
			11	साकादेही	धान असिंचित			मक्का
			12	बासपानी	धान असिंचित			मक्का
			17	मण्डई खुर्द	धान असिंचित			मक्का
			18	मण्डई बुजुर्ग				मक्का
			19	कोदारोटी	धान असिंचित			
			20	हिवरखोडी	धान असिंचित			
			21	बोदीजुनापानी	धान असिंचित			
			22	देवगांव	धान असिंचित			मक्का
			23	डहरगांव	धान असिंचित			मक्का
बैतूल	भैसदेही	घिल्लौर	1	कासतारखण्डी		सोयाबीन		मक्का
			2	पिपरिया				मक्का
			3	गुरबा		सोयाबीन		मक्का
			4	काबरा	धान असिंचित			मक्का
			5	परतरी	धान असिंचित			मक्का
			6	चकढाना	धान असिंचित			मक्का
			7	बासिंदा		सोयाबीन		मक्का
			8	घिल्लौर				मक्का
			9	बाटला खुर्द		सोयाबीन		
			12	डुलारिया		सोयाबीन		
			13	केकडिया कला		सोयाबीन		
			16	बोरकुण्ड		सोयाबीन		
			18	बटकी		सोयाबीन		
			19	पालंगा		सोयाबीन		
			20	मोहटा		सोयाबीन		
			21	टिंदी		सोयाबीन		
			22	कामोद		सोयाबीन		मक्का
			23	खैरा				मक्का
			24	डोडाजाम				मक्का
			25	कुनखेड़ी				मक्का
			26	गैधाखार				मक्का
			28	पाट रैयत	धान असिंचित			मक्का
बैतूल	भैसदेही	झल्लार	57	राक्सी			तुअर	
			71	कालडोगरी			तुअर	
			72	धामनगांव			तुअर	
			74	पिपरिया			तुअर	
बैतूल	भैसदेही	भीमपुर	29	बेला	धान असिंचित			मक्का
			31	झापल	धान असिंचित			मक्का
			32	भाडवा	धान असिंचित			मक्का
			33	सिंगारचावड़ी	धान असिंचित			मक्का
			34	रतनपुर	धान असिंचित			
			35	कूटगा	धान असिंचित			मक्का
			36	लककडजाम	धान असिंचित			मक्का
			37	अदश धनोरा				मक्का

4

			38	पलासपानी				मक्का
			39	भीमपुर		धान असिंचित		
			41	कुण्डबकाजन		धान असिंचित		मक्का
			42	चिखली आमढाना		धान असिंचित		मक्का
			44	सिमोरी				मक्का
बेतूल	मुलताई	प्रभात पट्टन	92	मालेगांव			सोयाबीन	
बेतूल	शाहपुर	शाहपुर	2	ढोढरामऊ			सोयाबीन	मक्का
			3	डाबरी			सोयाबीन	
			5	खापा		धान असिंचित		मक्का
			6	झापडी		धान असिंचित		मक्का
			7	कछार		धान असिंचित		मक्का
			8	सालीमेट		धान असिंचित		मक्का
			9	बानाबेहडा	धान सिंचित			
			13	बीजादेही				मक्का
			14	टागनामाल		धान असिंचित		मक्का
			15	फोफल्या रैयत		धान असिंचित		मक्का
			16	चिखली रैयत			सोयाबीन	मक्का
			17	डुमका रैयत			सोयाबीन	मक्का
			18	तारा			सोयाबीन	
			19	आवरिया				मक्का
			20	कान्हेगांव				मक्का
			21	केसिया				मक्का
			22	सेहरा			सोयाबीन	मक्का
			23	सीतलझिरी			सोयाबीन	मक्का
			24	रामपुरमाल			सोयाबीन	मक्का
			25	खोकरा रैयत			सोयाबीन	मक्का
			27	पावरझण्डा				मक्का
			28	रायपुर				मक्का
			30	गुवाडी		धान असिंचित		
			31	घपाडामाल		धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का
			32	कुण्डी	धान सिंचित	धान असिंचित		मक्का
			33	पहावाडी	धान सिंचित			मक्का
			34	पाठई				मक्का
			35	देशावाडी				मक्का
			36	मोखामाल	धान सिंचित			मक्का
			37	शाहपुर				मक्का
			38	कोटमी	धान सिंचित			
			39	सिलपटी	धान सिंचित			
			40	भयावाडी	धान सिंचित			

मूल अधिसूचना क्रमांक 189 से निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शित फसलों को विलोपित किया जाता है ।

बेतूल	आमला	आमला	9	अंधरिया		धान असिंचित		
			13	नान्दपुर		धान असिंचित		
			19	खापाखतेड़ा		धान असिंचित		
			23	जमदेहीकला		धान असिंचित		
			24	बारंगवाडी		धान असिंचित		मक्का
			26	छिपन्या पिपरिया		धान असिंचित		
			28	जमदेहीखुर्द		धान असिंचित		
			32	देवगांव		धान असिंचित		
			35	तिरमहू		धान असिंचित		
बेतूल	घोड़ाडोगरी	घोड़ाडोगरी	24	खदारा			तुअर	

(Handwritten Signature)

			30	पिसाझोडी			तुअर			
			37	सूखाढाना	धान असिंचित					
			38	सल्लैया	धान असिंचित					
			39	छतरपुर	धान असिंचित					
			50	सीताकामत	धान असिंचित					
			52	जुवाडी	धान असिंचित					
			53	रतनपुर	धान असिंचित					
			54	मेहकार	धान असिंचित					
			55	कुही	धान असिंचित					
			56	रानीपुर	धान असिंचित					
			57	अनकावाडी	धान असिंचित					
			58	चिखला आमढाना	धान असिंचित					
घोडाडोगरी	चोपना		2	बन्जारीढाल	धान असिंचित					
			5	शक्तीगाढ	धान असिंचित					
			7	आमढाना रैयत	धान असिंचित					
			8	नूतनढगाा	धान असिंचित					
			9	झोली	धान असिंचित					
			10	चोपना-1	धान असिंचित					
			11	आमढोह	धान असिंचित					
			12	बटकीढोह	धान असिंचित					
			13	हीरापुर-1	धान असिंचित					
			14	गोलहीबुजुर्ग	धान असिंचित					
			15	गोपीनाथपुर	धान असिंचित					
			16	बादलपुर	धान असिंचित					
			17	सिवनघाट	धान असिंचित					
चीचोली	चीचोली		9	घुरनी	धान असिंचित					मक्का
			15	घूनाहजूरी	धान असिंचित					
			23	दूधिया	धान असिंचित					मक्का
			24	असाडी						मक्का
			27	नसीराबाद	धान असिंचित					
			28	चिचौली	धान असिंचित					
बैतूल	बैतूल-1		35	गोढाना						सोयाबीन
			36	बैतूल नगरीय						सोयाबीन
			46	खंडारा						सोयाबीन
भैसदेही	धिलौर		1	काशमारखेडी	धान असिंचित					
			10	देसली	धान असिंचित					
			14	बाटलाकला	धान असिंचित					
			17	दामजीपुरा	धान असिंचित					
			23	खैरा	धान असिंचित					
			26	गदाखार						सोयाबीन
			27	नान्दा	धान असिंचित					
भैसदेही	भीमपुर		29	बेला						सोयाबीन
			31	झापल						सोयाबीन
			32	भोडवा						सोयाबीन
			36	लककडजाम						तुअर
			38	पलासपानी						तुअर
			39	भीमपुर						तुअर
			40	आदर्श पिपरिया						तुअर
			42	चिखली						तुअर
			47	जमन्या						तुअर
मुलताई	दुनाया		41	करपा	धान असिंचित					
			52	मालेगांव	धान असिंचित					
			55	सेमरया पाढरी	धान असिंचित					
शाहपुर	शाहपुर		8	सालीमेट						सोयाबीन
			22	सेहरा	धान असिंचित					
			23	सितलझिरी	धान असिंचित					
			24	रामपुरमाल	धान असिंचित					
			25	खोकरा रैयत	धान असिंचित					

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार					
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	जुजर
भोपाल	बैरसिया	नजीराबाद	00001	सूरजपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	खाताखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	मजीदगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	कोलूखेडी खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	खंडारिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	बीलखो	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00007	बंदरुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	गुजरतोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	नायसमद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	कढैयाकोटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	गढाकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	गढखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	भुजपुराकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	खजूरिया कलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	कढैयाकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	रमाहा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00017	सिधौडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00018	खैजडाघाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	नजीराबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	बडवेलीकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	बहरावल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
भोपाल	बैरसिया	नजीराबाद	00035	सेमरा भरोपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	कढैया चवर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	दौलतपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	ललोई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	तरावलीकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	सोनकच्छ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	बरखेडा बरामद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	बरोडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	गरेठिया दागी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	सेमराकलां	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	खजूरिया रामदास	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	भैसोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	नलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	बिरहा श्यामखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
00052	पिपलिया हस्नाबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00053	देवलखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00054	निदानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00055	रमगढा	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00056	हबीबगंज	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00057	खितवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00058	चांदा सलोई	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00059	कढैया शाह	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00060	चाटा हेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00061	तरावली खुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00062	दोहाया	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
00063	सोहाया	-	-	सोयाबीन	-	-	-			

		00064	जमूसरकलां			सोयाबीन	-	-	-
		00065	जमूसर खुद			सोयाबीन	-	-	-
		00066	मेगराकलां			सोयाबीन	-	-	-
		00067	करारिया			सोयाबीन	-	-	-
		00068	इमलिया नरेन्द्र			सोयाबीन	-	-	-
		00069	बरीछीर खेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00111	बैरसिया			सोयाबीन	-	-	-
			रूनाहा						
		00022	अमरपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00023	आकिया			सोयाबीन	-	-	-
		00024	रूनाहा			सोयाबीन	-	-	-
		00025	सुनगा			सोयाबीन	-	-	-
		00026	दमीला			सोयाबीन	-	-	-
		00027	परसोरा			सोयाबीन	-	-	-
		00028	कोलूखेडी कलां			सोयाबीन	-	-	-
		00029	मंगलगढ			सोयाबीन	-	-	-
		00030	मेगरानवीन			सोयाबीन	-	-	-
		00031	धुतखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00032	मनीखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00033	बागसी			सोयाबीन	-	-	-
		00034	कोटरा			सोयाबीन	-	-	-
		00039	खुकरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00040	रमपुरा बालाचौन			सोयाबीन	-	-	-
		00041	कघनारिया			सोयाबीन	-	-	-
			ललरिया						
		00070	कुल्होर			सोयाबीन	-	-	-
		00071	बैरागढ			सोयाबीन	-	-	-
		00072	डुंगरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00073	बराई			सोयाबीन	-	-	-
		00074	हिगोनी			सोयाबीन	-	-	-
		00075	धतुरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00076	अर्जुनखेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00077	बरखेडा याकब			सोयाबीन	-	-	-
		00078	बबचिया			सोयाबीन	-	-	-
		00079	मुडलाचंद			सोयाबीन	-	-	-
		00080	नरेला दामोदर			सोयाबीन	-	-	-
		00081	ललरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00082	झिकरिया खुद			सोयाबीन	-	-	-
		00083	दामखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00084	लंगरपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00085	अरौवती			सोयाबीन	-	-	-
		00086	बरी बघराज			सोयाबीन	-	-	-
		00087	उटखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00088	सेमरीकलां			सोयाबीन	-	-	-
			हराखेडा						
		00089	हराखेडा			सोयाबीन	-	-	-
		00090	धमरा			सोयाबीन	-	-	-
		00091	महोली			सोयाबीन	-	-	-
		00092	गांगा पिपलिया			सोयाबीन	-	-	-
		00093	जूनापानी			सोयाबीन	-	-	-
		00094	रोडिया			सोयाबीन	-	-	-
		00095	कलारा			सोयाबीन	-	-	-
		00096	उनीदा			सोयाबीन	-	-	-
		00097	कुटकीपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00098	कराँदिया			सोयाबीन	-	-	-
		00099	गुनगा			सोयाबीन	-	-	-
		00101	इजगिरी			सोयाबीन	-	-	-
		00102	दिल्लोद			सोयाबीन	-	-	-
		00103	मनीखेडी			सोयाबीन	-	-	-

		00104	प्रारदी			सोयाबीन			
		00105	हिनीती सडक			सोयाबीन			
		00106	सुकलिया			सोयाबीन			
		00107	रतुआ रतनपुर			सोयाबीन			
		00108	जैतपुरा			सोयाबीन			
		00109	कोटरा चौपडा			सोयाबीन			
		00110	भैसखेडा			सोयाबीन			
		00100	पीपलखेडा			सोयाबीन			
	हजर								
	ईटखेडी सडक								
		00001	पुराछिन्दवाडा			सोयाबीन			
		00002	बर्गोनिया			सोयाबीन			
		00003	मुगालिया हाट			सोयाबीन			
		00004	झिरनिया			सोयाबीन			
		00005	परवलिया सडक			सोयाबीन			
		00006	बरखेडा बोदर			सोयाबीन			
		00007	चंदखेडी			सोयाबीन			
		00008	तारासेवनिया			सोयाबीन			
		00009	कराना			सोयाबीन			
		00010	खेजडादेव			सोयाबीन			
		00011	निपानिया सूखा			सोयाबीन			
		00012	चन्देरी			सोयाबीन			
		00013	कुठार			सोयाबीन			
		00014	काछीबरखेडा			सोयाबीन			
		00015	खजूरी राताताल			सोयाबीन			
		00016	अरवालिया			सोयाबीन			
		00017	अचारपुरा			सोयाबीन			
		00020	रायपुर			सोयाबीन			
		00021	निपानिया जाट			सोयाबीन			
		00022	इस्लाम नगर			सोयाबीन			
		00023	गोलखेडी			सोयाबीन			
		00024	कनेरा			सोयाबीन			
		00025	अगरिया			सोयाबीन			
	फदाकला								
		00070	भौरी			सोयाबीन			
		00072	रसूलिया पठार			सोयाबीन			
		00073	बरखेडा सालम			सोयाबीन			
		00074	तूमडा			सोयाबीन			
		00076	बकानिया			सोयाबीन			
		00077	खजूरी सडक			सोयाबीन			
		00080	फदाकला			सोयाबीन			
		00078	साईस्ता खेडी			सोयाबीन			
		00079	बोरखेडी			सोयाबीन			
		00081	टीलाखेडी			सोयाबीन			
		00082	नांदनी			सोयाबीन			
		00083	ईटखेडी			सोयाबीन			
		00084	कोडिया			सोयाबीन			
		00085	मुगार लिया छाप			सोयाबीन			
		00086	सिकन्दराबाद			सोयाबीन			
		00087	बडझिरी			सोयाबीन			
		00088	सरवर			सोयाबीन			
		00090	सेमरी बाज्याफत			सोयाबीन			
		00089	मुण्डला			सोयाबीन			
		00091	आमला			सोयाबीन			
		00092	भानपुर केकडिया			सोयाबीन			
		00071	कोलुखेडी			सोयाबीन			
		00075	खौरी			सोयाबीन			
	बिलखिरियाक								
		00026	देवलखेडी			सोयाबीन			

		00027	खामखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	मुगलिया कोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	इमलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	चौपडा कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बरखेडी अब्दुल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	बालमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	अमोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपलिया जहीर पीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	कानासीया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	सेवनिया आंकारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कोलुआ खुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	नरोन्हा सांकल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पडरिया जाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बगरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	अमझरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	जमुनिया कला	-	सोयाबीन	-	-	-
	रातीबड							
		00047	रापडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	छपन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	रतनपुर सडक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	दीपडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	अमरावद कला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सुरैया नगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कालापानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	गोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	इनयातपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	बरखेडा नाथू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सौराबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
दतिया	इन्दरगढ़									
		Dheerpura								
			00046	Uchiya	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00037	Bhadona	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	Sunari	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	Jujharpur	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	Katapur	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		Indergarh								
			00024	Indergarh	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00029	Bhadol	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	Bharsula	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00021	Padri	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	Mahonajat	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	Dabhera	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00025	Khadoua	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00027	Tighru	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00030	Ramdeva	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	Jiginiya	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	Bharroli	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		Kudari								
			00001	Kanjoli	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	Seguwa	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	Kudari	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	Khairona	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	Khairi-Devta	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00009	Sethari	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	Pachokhara	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	Barguwa	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	Dohar	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	Delua	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	Rarua-Jeevan	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	Parsoda-Gujar	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	Piproua	धानसिंचित	-	-	-	-	-
दतिया										
		Datia								
			00013	kumhedi	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		Goraghat								
			00002	pachokhara	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	Behruka	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	Uparai	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	Banoli	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	Dongarpur	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	Seetapur	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		udgawa								
			00046	Sanora	धानसिंचित	-	-	-	-	-
बढौनी										
		Bilharikhurd								
			00025	Sanai	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	Lamkana	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00031	Goghari	धानसिंचित	-	-	-	-	-
भाण्डेर									
	Badera-Sopan								
		00038	Lahar-Haveli	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	Dhanoti	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	Dharampura	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	Godan								
		00001	Asuli	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	Porsa	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	Jouri	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	Udi	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	Mahdua	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	Rakhra	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	Pura-Daboh	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	Talgaon	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	Nogawa	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	Ahroni	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	Bhalka	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	Godan	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	Pandokhar								
		00022	Udeena	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	Dhoud	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	Ramner	धानसिंचित	-	-	-	-	-
सेवडा									
	Seondha								
		00018	Itoda	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	Debhai	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	Khanjapura	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	Atra	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	Tharet								
		00030	Parsodabaman	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	Maliyapura	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	Bhaguapura	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	Rampura-	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	Diguwa	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	Igul	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	Mahroli	धानसिंचित	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	सक्का	बाजरा
गुना	आरोन	आरोन								
			00020	इमलिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00021	रामगिरकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00022	आरोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	रिजोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00024	शहबाजपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	सुगनयाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	पहारुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	मातामंडरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	हिजोतिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	पतलेश्वर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	रामपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	बन्दावन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	ढिमरयाई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	सिरसी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	भौरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	खामखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00036	जखोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	मूडराखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		पनवाडीहाट								
			00038	सालय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00039	रोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	बरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00041	टकपरोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	कुन्दोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	देहरीकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00044	रुसलीकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	चौपना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	खिरियादांगी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00047	करैया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00048	कस्बामढी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00049	नेव	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00050	क्षै;पाल,	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00051	पनवाडीहाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00052	सर्राई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00053	सेमराचांच	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00054	डगराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00055	मुहासा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00056	झितिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00057	आमखेसडासूखा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00058	हापाखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
		बरखेडाहाट								
			00001	पाटन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00002	सगाबरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00003	बरखेडाहाट	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	बारोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	देवरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00006	भादौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	नठाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	घटवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	देहरीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बूढाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	खजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	अमोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	वनवीरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	शहरोग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	झाड़ोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	साबनभादो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	ककरुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कश्मान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पिपरोदा मैना	-	सोयाबीन	-	-	-
	कुम्भराज							
	कुम्भराज							
		00035	मानकचौक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	केकडयाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	गुलबाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	अंगरयाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	आमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कुम्भराज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	गोल्याखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बरखेडाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	तुलसीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	परवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	ईटखेडीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कदारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	रोडाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अल्लीखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	कानाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	उपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	केकडयाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	खटकिया	-	सोयाबीन	-	-	-
	भमावद							
		00018	मोहम्मदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सीगनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	सानई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	भूमलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	मंदागनमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	आमखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	पीपल्या सीगनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	तलाबडा मजरा सानई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	मोहनपुरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बडौद	-	सोयाबीन	-	-	मक्का
		00032	बिरयाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	भमावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रामनगर लोघापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	झारेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	आकखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बहूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	खेजडारामा	-	सोयाबीन	-	-	-
	मृगवास							
		00002	झीकनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	खानपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	कोलूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	मक्का

208

		00005	खेडीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बासाहेडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	खजूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	तलावडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	केकडीवीरान	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00010	झीरी	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	वकान्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	सोलाई	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00013	कडैयाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	वीरकाखेडा	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	टटूजखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	मृगवास	-	सोयाबीन	-	-	-
	गुना							
	उमरी							
		00027	गाजीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	उकावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	गोपालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	गजनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	कुन्दोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मगराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	इमझरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	रिछेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	महखान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	हिनोतिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	मानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खुटियावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	रेझाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	पुरेनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	घमनार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	तरावटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिलावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	विलोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	उमरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	अगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	भिडरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	चकदेवपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मकरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	नेगमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	पुरापोसार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	हरिपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	सिधाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	गढा	-	सोयाबीन	-	-	-
	गुना							
		00055	पांज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	बजरगगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	महगढा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	हिलगना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	कुशमोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	विनायकखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गुना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	सकतपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	पिपरोदाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	छावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	पिपरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	मावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	टोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बेहटाधट	-	सोयाबीन	-	-	-

		00071	माहर		-	सोयाबीन			
		00072	पिपरोदाकला		-	सोयाबीन			
		00073	खेजरा		-	सोयाबीन			
		00074	गढलागिर्द		-	सोयाबीन			
		00075	गोपालपुरटकटैया		-	सोयाबीन			
		00076	गेहखेडागिर्द		-	सोयाबीन			
		00077	बरखेडागिर्द		-	सोयाबीन			
		00078	करोद		-	सोयाबीन			
		00079	मंगवार		-	सोयाबीन			
		00080	देवरीमार		-	सोयाबीन			
		00081	परसोदा		-	सोयाबीन			
		00082	सिरसीकला		-	सोयाबीन			
		00083	सतनपुर		-	सोयाबीन			
		00084	चुराई		-	सोयाबीन			
		00085	छोपोन		-	सोयाबीन			
		00086	दुरदुरु		-	सोयाबीन			
		00087	तिल्लीखेडा		-	सोयाबीन			
	म्याना								
		00001	रेहपुरा		-	सोयाबीन			
		00002	कलेछरी		-	सोयाबीन			
		00003	नयागांव		-	सोयाबीन			
		00004	मझौला		-	सोयाबीन			
		00005	सांडखडा		-	सोयाबीन			
		00006	सनबाडा		-	सोयाबीन			
		00007	सिरसी		-	सोयाबीन			
		00008	करीली		-	सोयाबीन			
		00009	कर्क की मह		-	सोयाबीन			
		00010	मार की मह		-	सोयाबीन			
		00011	उदयपुरी		-	सोयाबीन			
		00012	म्यापुर		-	सोयाबीन			
		00013	राई		-	सोयाबीन			
		00014	खेरीखता		-	सोयाबीन			
		00015	महोदरा		-	सोयाबीन			
		00016	भदौरा		-	सोयाबीन			
		00017	लहरकोता		-	सोयाबीन			
		00018	डुगासरा		-	सोयाबीन			
		00019	तिनस्याई		-	सोयाबीन			
		00020	सिंगपुर		-	सोयाबीन			
		00021	टकनेरा		-	सोयाबीन			
		00022	खजूरी		-	सोयाबीन			
		00024	पदमनखेडी		-	सोयाबीन			
		00025	लहरधाट		-	सोयाबीन			
		00026	जमरा		-	सोयाबीन			
		00023	म्याना		-	सोयाबीन			
	चाचौडा								
	चाचौडा								
		00001	फतेहपुर		-	सोयाबीन		मक्का	
		00002	बटावदा		-	सोयाबीन		मक्का	
		00003	जलालपुरा		-	सोयाबीन			
		00004	पीपलहेडाडांग		-	सोयाबीन			
		00005	झूकरा		-	सोयाबीन		मक्का	
		00006	कुसुमपुरा		-	सोयाबीन		मक्का	
		00007	उमरथाना		-	सोयाबीन			
		00008	मांगरोन		-	सोयाबीन			
		00009	मोरियाखेडीखुर्द		-	सोयाबीन			
		00010	कालापीपल		-	सोयाबीन		मक्का	
		00011	पीपल्यामोती		-	सोयाबीन			
		00012	चाचौडा		-	सोयाबीन		मक्का	

		00013	महेशपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	खातोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बीजनीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कुडाल्या	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00017	बरखेडीमाफी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	दैदला	-	सोयाबीन	-	-	-
	पैची							
		00038	पैची	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	महासाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	कोटरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नैत्याखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	आमासर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	मुरेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	पाखरियापुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सोनाहेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कनकनहेरू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	नारायणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	कोकन्याकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	मेरियाखेडीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	देहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	डाबरया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	तेलीगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	रतोधना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	लखनवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	वापचाविक्रम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	खेजडाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
	रमडी							
		00019	रमडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अजगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	बरखेडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	खेजडाकलारानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	घाटाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	चितोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कोलुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	वापचालहरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	जयसिंहपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पटोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	टोडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	अरन्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गेहूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	पीपल्याकलाबांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	जटेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कीताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	लहरचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	भेसुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
	बामोरी							
	फतेहगढ							
		00001	कपासी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	चकलोडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सिलावटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	जोहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बर्धा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	टीली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पाडोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	नरवदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	छिकारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बरवन	-	सोयाबीन	-	-	-

		00036	कलौरा		-	सोयाबीन			
		00037	फतेहगढ		-	सोयाबीन			
		00038	भिडरा		-	सोयाबीन			
		00039	कुडका		-	सोयाबीन			
		00040	बावडीखेडा		-	सोयाबीन			
		00041	चीलखेडा		-	सोयाबीन			
		00042	डिगडोली		-	सोयाबीन			
		00043	पाठी		-	सोयाबीन			
		00044	हमीरपुर		-	सोयाबीन			
		00045	कोहन		-	सोयाबीन			
		00046	अजरोडा		-	सोयाबीन			
		00047	कशेपुर		-	सोयाबीन			
		00048	मगरोडा		-	सोयाबीन			
		00049	कान्सल		-	सोयाबीन			
		00050	किशनपुरा		-	सोयाबीन			
		00051	रामनगर		-	सोयाबीन			
		00052	भौरा		-	सोयाबीन			
		00053	लालानी		-	सोयाबीन			
		00054	चुरेला		-	सोयाबीन			
		00055	बनेह		-	सोयाबीन			
		00056	धनोरिया		-	सोयाबीन			
		00057	धाननखेडी		-	सोयाबीन			
		00058	सुहाया		-	सोयाबीन			
		00059	परवाह		-	सोयाबीन			
		00060	ऐदबाडा		-	सोयाबीन			
		00061	रत्नागिर		-	सोयाबीन			
		00062	झागर		-	सोयाबीन			
		00063	मूडराहनुमान		-	सोयाबीन			
		00064	सूजाखेडी		-	सोयाबीन			
		00065	विश्वनगर		-	सोयाबीन			
	बमोरी								
		00011	देहरी		-	सोयाबीन			
		00012	विशनवाडा		-	सोयाबीन			
		00013	पाटन		-	सोयाबीन			
		00014	बिटोलपुर		-	सोयाबीन			
		00015	डोगरी		-	सोयाबीन			
		00016	गढलाउजारी		-	सोयाबीन			
		00017	सोनखरा		-	सोयाबीन			
		00018	काबरबमोरी		-	सोयाबीन			
		00019	डुमावन		-	सोयाबीन			
		00020	बरोदिया		-	सोयाबीन			
		00021	पराठ		-	सोयाबीन			
		00022	देहरा		-	सोयाबीन			
		00023	डोगरपुर		-	सोयाबीन			
		00024	खडैला		-	सोयाबीन			
		00025	अकोदा		-	सोयाबीन			
		00026	बाधेरी		-	सोयाबीन			
		00027	मुहालकालोनी		-	सोयाबीन			
		00028	पांचोरा		-	सोयाबीन			
		00029	रामपुर		-	सोयाबीन			
		00030	सिलावटी		-	सोयाबीन			
		00031	उकावद कला		-	सोयाबीन			
		00032	बमोरी		-	सोयाबीन			
		00033	लोडेरा		-	सोयाबीन			
		00034	गवारखेडा		-	सोयाबीन			
		00035	दोहरदा		-	सोयाबीन			
		00066	मुरादपुर		-	सोयाबीन			
		00067	गोलाखेडी		-	सोयाबीन			

		00068	खेजराबाबा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	बेरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	शेखपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	विसोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	सामरसीगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	साबरासीदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	कोतर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	खरगपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	खयावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	अमरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	भूराखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	मोहनपुरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00080	सिमरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
	मकसूदनगढ़							
	जामनेर							
		00001	खजेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	परेवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	टोडरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	सालोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	लक्ष्मणपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	बलरामपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	गादेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	पाटन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	विजावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मोरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	गोघाआमल्या	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	जामनेर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	वापचा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	बेरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मलियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बंजला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	डरपई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	कंजई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	डोगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	पचगोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	धीनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	जागरु	-	सोयाबीन	-	-	-
	मकसूदनगढ़							
		00023	सियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कोलारस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मोहम्मदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	तोरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	करेला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कजलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	नलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मकसूदनगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	परवरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	एमनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बारोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	कीताखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	दिरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	नागनखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	भगवतीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बडौदकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	उकावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	करोदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	नसीरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-

		00043	खेराड			सोयाबीन			
		00044	शाहपुर			सोयाबीन			
		00045	कादीखेडा			सोयाबीन			
		00046	दुर्गपुरा			सोयाबीन			
		00047	विशनखेडा			सोयाबीन			
		00048	खेरखेडा			सोयाबीन			
		00049	महू			सोयाबीन			
	राधोगढ								
		करमाखेडी (रुहियाई)							
		00001	खेजडागुरुजी			सोयाबीन			
		00002	खिरिया			सोयाबीन			
		00003	घरनावदा			सोयाबीन			
		00004	भुलाय			सोयाबीन			
		00005	ककवासा			सोयाबीन			
		00006	सकतपुर			सोयाबीन			
		00007	बेलका			सोयाबीन			
		00008	विजयपुर			सोयाबीन			
		00009	बालाभेट			सोयाबीन			
		00010	दावतपुरा			सोयाबीन			
		00011	टोडी			सोयाबीन			
		00012	भदोडी			सोयाबीन			
		00013	देहरी			सोयाबीन			
		00014	करमाखेडी			सोयाबीन			
		00015	दुहावद			सोयाबीन			
		00016	बंदरगढा			सोयाबीन			
		00017	खेराई			सोयाबीन			
		00018	नादनेर			सोयाबीन			
		00019	पुरेना			सोयाबीन			
		00020	पगारा			सोयाबीन			
		00021	दौराना			सोयाबीन			
		00022	पाडरखेडी			सोयाबीन			
		00023	डोगर			सोयाबीन			
	राधोगढ								
		00024	भैसाना			सोयाबीन			
		00025	अहीरखेडी			सोयाबीन			
		00026	अहमदापुर			सोयाबीन			
		00028	विदौरिया			सोयाबीन			
		00029	नोहर			सोयाबीन			
		00030	सावरीनाथ			सोयाबीन			
		00031	रामनगर			सोयाबीन			
		00032	सारसहेला			सोयाबीन			
		00033	अचकलपुर			सोयाबीन			
		00034	आवन			सोयाबीन			
		00035	बेहराखेडी			सोयाबीन			
		00036	साकोन्या			सोयाबीन			
		00037	सौरामपुरा			सोयाबीन			
		00038	नारायणपुरा			सोयाबीन			
		00039	गोविन्दपुरा			सोयाबीन			
		00040	सुन्दरखेडी			सोयाबीन			
		00041	पारकना			सोयाबीन			
		00042	गावरी			सोयाबीन			
		00043	दीतलबाडा			सोयाबीन			
		00044	सागर			सोयाबीन			
		00045	फाजलपुर			सोयाबीन			
		00046	पीलाघाटा			सोयाबीन			
		00047	सावतखेडी			सोयाबीन			
		00050	गोडिया			सोयाबीन			
		00051	घोपडा			सोयाबीन			
		00052	बरखेडीडाग			सोयाबीन			
		00053	परसोलिया			सोयाबीन			
		00054	आमल्या			सोयाबीन			
		00055	पीपलखेडी			सोयाबीन			
		00056	बरसत			सोयाबीन			

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार
पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार								
			पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम											
शिवपुरी	कोलारस	कोलारस	00001	अटामानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00002	पाडोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00003	रुहानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00004	राजगढ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00005	चिलावद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00006	पहाडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00007	देहरोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00008	सुआटोर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00009	कोटानाका	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00010	दीगोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00011	कुमरौआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00012	कार्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00013	गोहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00014	खैरोना	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00015	खरई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00016	तैदुआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00017	डेहरवारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00018	अटारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00019	मकरारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00020	सरजापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00021	मोहरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00022	चंदेनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00023	नेतवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00024	मडीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00025	कुम्हरौआ	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00026	खौंकर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00027	सेसई सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00028	पडौरा सडक	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00029	बैहटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00030	टीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00031	गोराटीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00032	बेरसिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00033	कोलारस	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00034	सिंगराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
			00035	राई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	-		
					लुकवासा								
						00036	बेडारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00037	गुडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00038	चंदोरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00039	भडोता	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00040	चकरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00041	साखनौर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00042	रिजौदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00043	मोहराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00044	पनवारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00047	भाटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
						00049	लेवा	-	-	सोयाबीन	-	-	-

		00050	उन्हाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गणेशखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बसाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	राछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	अटरुनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	लुकवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	आनंदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पचावला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	ईमलावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	पचावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	डंगोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	कुल्हाडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	टुडियावद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	दीघोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	सेसईखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	गड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	झाडेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	विजरावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	किशनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	धुआं	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	टेहरदा सडक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	किलावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	डोडयाई	-	सोयाबीन	-	-	-
	खनियाधा							
	खनिया							
		00005	तेरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	मसूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बघारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	घिलौंदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पहाडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	महुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	मुहासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	पचराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	पिपरीदा उबारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	पुरा	-	-	-	मक्का	-
		00017	अहार वानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सिनावलकला	-	-	-	मक्का	-
		00029	सिलपुरा	-	-	-	मक्का	-
		00030	चमरीआ	-	-	-	मक्का	-
		00022	देवरी	-	-	-	मक्का	-
	महारी							
		00039	पहाडपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	खजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	इमलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	कफार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	ममरीनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बनखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	बुकरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	हर्षपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	झालोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	गोलाकोट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	देवखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	अमुहाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	हरयोनि	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	पातीचक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पिपरीदाआलम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	बामोरकला	-	सोयाबीन	-	-	-

नरवर	करही								
		00029	फूलपुर नरवर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	बिची	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	हतेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	सीहोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	बहगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	धमधौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	छीतरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	कूबरी ऊर्	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	सोन्हर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	गनियार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	इन्दरगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	करही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	रामनगर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	झण्डा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	बेरखंडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	रमगढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	नैनागिर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	खडीचा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	फतेहपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	सिलरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	दिहायला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	राजपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	दोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	भैसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	सुनारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	रोनीजा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	अन्दौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	नरवर								
		00001	पीपलखाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	ड्यावदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	निजामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	केरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	पनानेर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	दिगवास	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	देवरीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	मगरोनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	किशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	नरवर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	सिकंदरपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	बरखाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	जैतपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	जुझाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	नरोआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	कालीपहाडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	साबोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	ठाटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	सिमरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	कांकर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पिछोर								
	01-खोड								
		00005	मउकुडच्छा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00006	वीरा		-	-	-	सोयाबीन	-
		00007	कुम्हरोआ		-	-	-	सोयाबीन	-
		00008	देवरीखुर्द		-	-	-	सोयाबीन	-
		00009	माचमौर		-	-	-	सोयाबीन	-
		00015	गडोईया		-	-	-	सोयाबीन	-

		00016	शेरगढ़	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	केमखेड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	तिजारपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	रूपपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	पडौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	भडौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	खडोय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ककराआ जू	-	सोयाबीन	-	-	-
		02-मनपुरा						
		00057	बदरखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	करारखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	बिरोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		पिछोर						
		00072	भितरगवां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	जराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00081	मलावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		पोहरी						
		छर्च						
		00026	मारौराहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	देवरीखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	पिपरधार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	उपसिल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	मडखेडा	-	-	-	-	बाजरा
		00031	डोभा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00032	महदेवा	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00033	बिलौआ	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00034	हिलौनिया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00035	छर्च	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00036	महलौनी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00037	भैसरावन	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00038	डिगडौली	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00039	खरवाया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00040	चांदपुर	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00041	गल्थनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	दौरानी	-	-	-	-	बाजरा
		00043	परासरी	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00044	अर्गरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	वेशी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	घटाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बमरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सालौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	बैधारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		पोहरी						
		00001	ऐसवाया	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
		00002	डंगवर्चे	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मालवर्चे	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मकलीजरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	दुल्हारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	झलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	नरैयाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	झिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	अतवेई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सेवाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बीलबराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	भटनावर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	नानौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	नौन्हेटाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जाखनौद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00019	ग्वालीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	बँहटा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	चकराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बछौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कनाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	परिच्छाअहीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	आंकुर्सी	-	सोयाबीन	-	-	-
	बदरवास							
	बदरवास							
		00001	मुडेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	गुडालडांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सोलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	अगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	झूलना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	वायगा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बरखेडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	अटलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	मांगरौल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सुमैला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	बडोखरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	चंदोरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	धामनटुक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	बामौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	बारई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बदरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	तिलातिली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बूढाडांगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	चिटोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सडबूड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रिजौदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बिजरीनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	मैघोनाडांग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	मडवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	तरावली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	पीरौठ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बरोदिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	खतौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	बारौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	अलावदी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सेजवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बामौरखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
	रन्नीद							
		00034	विनेका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	सजाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	खरैह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	विजयपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	बीजरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	लालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	देहरदागणेश	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	टामकी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	अकोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	ढकरोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	टीलाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	सुनाज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	बामौरकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	अकाझिरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	इचोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-

		00049	धन्धेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	डगपीपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	रन्नौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	सेसई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	बेदमउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	मथना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	अम्हारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	माडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	ठाठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	सिघराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	रिन्हाय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	इन्दार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	गिन्दौरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	झण्डी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	रामगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	पगारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	कूटवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	श्रीपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कुसुअन	-	सोयाबीन	-	-	-
	बैराड							
	गोवर्धन							
		00001	भिलौडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ठेवला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	ककरीआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खैरारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बूडदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गुरीच्छा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	हरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	रायपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	खटका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खरईजालिम	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	बाघेदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	फुलीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	धतूरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	एँचवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	मीराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	खरईडाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	गोवर्धन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	धौरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	गाजीगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
	बैराड							
		00020	केमई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	जीराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रेययन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	देवपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	जरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	टाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	भदेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	टोरियाखलसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	पचीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	कालामढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ककरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	गौंदरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	गोबरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	सांपरवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	देवरीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	रसैरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	बरौद	-	सोयाबीन	-	-	-

		00038	बीलबरामता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	मारौराखलसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	खैदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	बेरजा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बैराढ	-	सोयाबीन	-	-	-
शिवपुरी	02-शिवपुरी							
		00038	नोहरीकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	झींगुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	सिंहनिवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	दरौनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	ठर्रा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	सिरसोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	टोंका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	लोहादेवी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	करमाजकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	ख्यावदाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	कोडावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	ईटमा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	तानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	लालगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	टोगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सुहारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	कुसियारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बिलोकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	सतेरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	पिपरसमां	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	रायश्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	रातौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	मनियर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	बासखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	बडागांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	हातोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	सुरवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	करई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00072	गंगोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00073	धुवानी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00074	बूडीबरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00075	मोहनगड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	गडीबरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00077	खटैला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00078	डबिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	भावखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कोटा	-	सोयाबीन	-	-	-
	सुआषपुरा							
		00001	महेशपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	गोपालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	इमलिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	खांटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	गुरावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	करसेना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	भानगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	कलोथरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बम्हारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	करई केरउ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	धौलागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	इंदरगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	टँहटा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00014	सेवडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	पाडरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सूड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	करई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	कांकर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सकलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	ठेह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डोंगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सतनवाडाखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सतनवाडाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खजूरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	कंअरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सिकरावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	कपराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	जामखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	बिलूपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खौरघार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	रातीकिरार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मुडेरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	गूगरीपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	चंदनपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	चिटोरा	-	सोयाबीन	-	-	-

	ईशानगर					सोयाबीन	-	-	-
		00026	पनौठा			सोयाबीन	-	-	-
		00027	गहरवार			सोयाबीन	-	-	-
		00028	पहाडगांव			सोयाबीन	-	-	-
		00029	ईशानगर			सोयाबीन	-	-	-
		00030	पठादा			सोयाबीन	-	-	-
		00031	वोडा			सोयाबीन	-	-	-
		00032	सीगोन			सोयाबीन	-	-	-
		00033	रामपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00034	बीहटा			सोयाबीन	-	-	-
		00035	कुरी			सोयाबीन	-	-	-
		00036	बरदवाहा			सोयाबीन	-	-	-
		00037	रनगावां			सोयाबीन	-	-	-
		00039	खैरो			सोयाबीन	-	-	-
		00040	रमपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00042	खडगांव			सोयाबीन	-	-	-
		00043	मातगावां			सोयाबीन	-	-	-
		00044	इकारा			सोयाबीन	-	-	-
		00047	अतरार			सोयाबीन	-	-	-
		00049	बूदौर			सोयाबीन	-	-	-
	छतरपुर (अ)								
		00060	खीप			सोयाबीन	-	-	-
		00061	मोहवा			सोयाबीन	-	-	-
		00062	बारी			सोयाबीन	-	-	-
		00063	निवारी			सोयाबीन	-	-	-
		00064	कांटी			सोयाबीन	-	-	-
		00065	सरानी			सोयाबीन	-	-	-
		00066	बरकांहा			सोयाबीन	-	-	-
		00067	बरायछखेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00074	तजपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00078	नैगवां			सोयाबीन	-	-	-
		00081	पडरिया			सोयाबीन	-	-	-
	महेबा								
		00022	बनगांव			सोयाबीन	-	-	-
	नीगांव								
	नीगांव								
		00016	करारागंज			सोयाबीन	-	-	-
		00024	नैगवां			सोयाबीन	-	-	-
		00026	नीगांव			सोयाबीन	-	-	-
		00028	गरोली			सोयाबीन	-	-	-
		00030	बछौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00032	बीरपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00033	तिदनी			सोयाबीन	-	-	-
	लगासी								
		00046	मडरका			सोयाबीन	-	-	-
	बकस्वाहा								
	बकस्वाहा								
		00001	कजरा			सोयाबीन	-	-	-
		00002	दरगुवा			सोयाबीन	-	-	-
		00003	भुजपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00004	ढिमरुवां			सोयाबीन	-	-	-
		00005	बाजना			सोयाबीन	-	-	-
		00006	निमानी			सोयाबीन	-	-	-
		00007	मझौरा			सोयाबीन	-	-	-
		00008	बीमरपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00009	तेईयामार			सोयाबीन	-	-	-
		00010	गढोही			सोयाबीन	-	-	-
		00011	मढदेवरा			सोयाबीन	-	-	-
		00012	सानौदा			सोयाबीन	-	-	-
		00013	बकस्वाहा			सोयाबीन	-	-	-
		00014	कुशमाढ़			सोयाबीन	-	-	-
		00015	पडरिया			सोयाबीन	-	-	-

		00016	चचई सेमरा		सोयाबीन			
		00017	गढीसेमरा		सोयाबीन			
		00018	केरवारा		सोयाबीन			
		00019	पानी		सोयाबीन			
		00020	किशोरपुरा		सोयाबीन			
		00021	जैतुपुरा		सोयाबीन			
		00022	सूनवाहा		सोयाबीन			
	बम्होरी							
		00023	धरमपुरा		सोयाबीन			
		00024	बम्होरी		सोयाबीन			
		00025	मुडिया		सोयाबीन			
		00026	गुगवारा		सोयाबीन			
		00027	मडिया बजुर्ग		सोयाबीन			
		00028	घोधरा		सोयाबीन			
		00029	निवार		सोयाबीन			
		00030	चौरई		सोयाबीन			
		00031	सेठारा		सोयाबीन			
		00032	महटा		सोयाबीन			
		00033	नैनानिर		सोयाबीन			
		00034	मानकी		सोयाबीन			
		00035	बेरखेरी		सोयाबीन			
		00036	मझगुवाघाटी		सोयाबीन			
		00037	देवपुर		सोयाबीन			
		00038	खमरिया		सोयाबीन			
		00039	सुजारा		सोयाबीन			
		00040	देवरी		सोयाबीन			
	बडा मलहरा							
	बडामलहरा							
		00001	खरदौती		सोयाबीन			
		00002	बीरो		सोयाबीन			
		00003	सैरोरा		सोयाबीन			
		00004	सिजवाहा		सोयाबीन			
		00005	बमनीघाट		सोयाबीन			
		00006	बंधा		सोयाबीन			
		00007	देवरा		सोयाबीन			
		00008	पीरा		सोयाबीन			
		00009	डिकोली		सोयाबीन			
		00010	बाँकना		सोयाबीन			
		00011	डोंगरपुरा		सोयाबीन			
		00012	मुंगवारी		सोयाबीन			
		00013	देवपुर		सोयाबीन			
		00014	विक्रमपुर		सोयाबीन			
		00015	करकी		सोयाबीन			
		00016	चिनीची		सोयाबीन			
		00017	कायन		सोयाबीन			
		00018	रजपुरा		सोयाबीन			
		00019	बरेठी		सोयाबीन			
		00020	सतपारा		सोयाबीन			
		00021	फुटवारी		सोयाबीन			
		00022	कुंवरपुराकला		सोयाबीन			
		00023	पिपराकला		सोयाबीन			
		00024	लिधौरा		सोयाबीन			
		00025	भोजपुरा		सोयाबीन			
		00026	गरखुवा		सोयाबीन			
		00027	मनकारी		सोयाबीन			
		00028	महाराजगंज		सोयाबीन			
		00029	बडामलहरा		सोयाबीन			
	सडवा							
		00030	राजापुर		सोयाबीन			
		00031	संधपा		सोयाबीन			
		00032	बरमा		सोयाबीन			
		00033	धनगुवा		सोयाबीन			
		00034	सूरजपुरा रोड		सोयाबीन			

		00035	सडवा			सोयाबीन	-	-	-
		00036	कर्री			सोयाबीन	-	-	-
		00037	सूरजपुरा खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00038	परा			सोयाबीन	-	-	-
		00039	मैलवार			सोयाबीन	-	-	-
		00040	छाईकुवा			सोयाबीन	-	-	-
		00041	बमनी			सोयाबीन	-	-	-
		00042	परतापपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00043	सिगरामपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00046	जसगवा कला			सोयाबीन	-	-	-
		00047	सूरजपुरा कला			सोयाबीन	-	-	-
	बिजावर								
	देवरा								
		00028	डारगुवा			सोयाबीन	-	-	-
		00029	बिजयपुर			सोयाबीन	-	-	-
		00030	जखरीन कला			सोयाबीन	-	-	-
		00031	सटई			सोयाबीन	-	-	-
		00032	नदगांय बटन			सोयाबीन	-	-	-
		00033	कसार			सोयाबीन	-	-	-
		00034	रजपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00035	नारायणपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00036	अमरपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00037	कूपिया			सोयाबीन	-	-	-
		00038	अमरीनिया			सोयाबीन	-	-	-
		00039	मझगुवाकला			सोयाबीन	-	-	-
		00041	मोतीगढ़			सोयाबीन	-	-	-
		00042	देवरा			सोयाबीन	-	-	-
		00043	लहर			सोयाबीन	-	-	-
		00044	धरमपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00045	पतरा			सोयाबीन	-	-	-
		00046	डिलारी			सोयाबीन	-	-	-
		00047	बडागांव			सोयाबीन	-	-	-
		00049	लुहरपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00051	नगदा			सोयाबीन	-	-	-
		00052	मतिपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00054	राईपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00056	कदवारा			सोयाबीन	-	-	-
		00062	जैतपुर			सोयाबीन	-	-	-
	बिजावर								
		00001	गढा			सोयाबीन	-	-	-
		00002	गुलगंज			सोयाबीन	-	-	-
		00003	बकस्वाहा			सोयाबीन	-	-	-
		00004	गोपालपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00005	मउखेरा			सोयाबीन	-	-	-
		00006	मझगुवा खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00007	अनगौर			सोयाबीन	-	-	-
		00008	मामौल			सोयाबीन	-	-	-
		00009	नयागाव			सोयाबीन	-	-	-
		00010	हुटवाहा			सोयाबीन	-	-	-
		00011	पनागर			सोयाबीन	-	-	-
		00012	पिपट			सोयाबीन	-	-	-
		00013	जसगुवा खुर्द			सोयाबीन	-	-	-
		00014	भारतपुरा			सोयाबीन	-	-	-
		00015	नयाताल			सोयाबीन	-	-	-
		00016	विलगाय			सोयाबीन	-	-	-
		00017	बिजावर			सोयाबीन	-	-	-
		00018	गुलाट			सोयाबीन	-	-	-
		00020	पाटन			सोयाबीन	-	-	-
		00022	एरीस			सोयाबीन	-	-	-
		00023	बकसोही			सोयाबीन	-	-	-
		00024	महूआझाला			सोयाबीन	-	-	-
		00025	पाली			सोयाबीन	-	-	-
		00026	लखन गुवा			सोयाबीन	-	-	-

		00027	रगौली	-	सोयाबीन	-	-	-	21
	महाराजपुर								
		गढी मलहरा							
		00001	उजरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00002	कुरीहा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00004	नुना	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00008	मलहरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00010	बेदार	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00011	उदमउ	-	सोयाबीन	-	-	-	
	महाराजपुर								
		00016	महाराजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00020	पुरमउ	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00026	शहपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00027	टटम	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00030	बिकोरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
	राजनगर								
		घन्टनगर							
		00062	लखेरी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00063	नयागांव	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00074	धमना	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00085	घुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		बसारी							
		00035	पहाडी मैमारू	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00036	परा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00037	कोटा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00038	तिलोहां	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00040	बिरीना	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00041	झमलिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00043	गढा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00042	पहरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00044	कदौहा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00045	बसारी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00046	बरेठी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00047	कुटिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00049	पारवा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00050	बादनी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00051	सिताबट	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00052	झैरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00053	सलैया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00056	झमटुली	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00057	कटारा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00058	औंटापुरवा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00059	बेडरी	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00060	गंज	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00061	खेरी	-	सोयाबीन	-	-	-	
	राजनगर								
		00020	पिपट	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00021	नंदया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00022	विक्रमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00023	जमुनिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00024	पाय	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00025	खजवा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00029	हकीमपुरा	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00031	खजराहो	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00032	राजनगर	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00028	पहरापुरवा	-	सोयाबीन	-	-	-	
	बलपुर								
		00005	मनिया	-	सोयाबीन	-	-	-	
		00008	तालगांव	-	सोयाबीन	-	-	-	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
मूल अधिसूचना क्रमांक 189 से निम्नलिखित पटवारी हल्कों के सम्बन्ध दर्शित फसलों को विलोपित किया जाता है ।

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
पन्ना	अजयगढ	बीरा	00030	फरस्वाहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
	अमान गंज	अमानगंज	00040	झरकुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00021	जसबन्तपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00022	द्वारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00024	तारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
			00025	बांधीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-	-
		सुनवानीकला	00008	कमताना		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	गुन्चौर	सलेहा	00032	करहिया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	भटनवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	छपरवारा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	देवेन्द्रनगर	ककरहटी	00012	गौरा		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
		देवेन्द्रनगर	00018	बझगाव		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	पन्ना	वृजपुर	00029	अहिरगधा		धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-	-
	पवई	कल्दा	00034	कुपना			सोयाबीन	-	-	-	-
			00008	इमलिया		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	सिगरिया गुलाब सिंह		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	रेपुरा	हरदुआ पटेल	00002	सिमरीकला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	शाहनगर	विसानी	00039	शाहपुरकला		धानअसिंचित	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
मूल अधिसूचना क्रमांक 189 में निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शित फसलों को जोड़ा जाता है ।

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
पल्लो	Simaria									
		सिमरिया								
			00001	कोलकरहिया		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00002	देवरी		-	सोयाबीन			
			00003	गनियारी		-	सोयाबीन			
			00004	गूढा		-	सोयाबीन			
			00005	कोनी		धानअसिंचित	-			
			00006	सांटा बुद्धसिंह		-	सोयाबीन			
			00007	बोदा		-	सोयाबीन			
			00008	चिखला		धानअसिंचित	-			
			00009	सिमरिया		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00010	लुधनी		धानअसिंचित	-			
			00011	रैकरा		-	सोयाबीन			
			00014	खजरी		धानअसिंचित	-			
			00015	बनौली		धानअसिंचित	-			
			00016	सिंगवारा		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00018	दनवारा		धानअसिंचित	-			
			00019	हीरापुर		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00020	विरासन		धानअसिंचित	-			
			00021	उमरी		-	सोयाबीन			
			00022	तिघरा		-	सोयाबीन			
			00023	करिया		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00024	पलोही		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00025	गोल्ही		धानअसिंचित	-			
			00026	अतरहाई		धानअसिंचित	-			
			00027	कुअरपुर		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00028	पडरिया कलां		धानअसिंचित	-			
			00029	मोहन्दा		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00030	कोठी		धानअसिंचित	-			
			00031	मड़ागवां पहाड़		धानअसिंचित	-			
	अजयगढ़									
		अजयगढ़								
			00024	वरियारपुर कुर्मियान		-	-	तुअर		
		धरमपुर								
			00047	देवलपुर		-	-	तुअर		
			00048	नरदह		-	-	तुअर		
			00049	मकरी		-	-	तुअर		
			00050	आखुरी		-	-	तुअर		
			00053	अमरछी		-	-	तुअर		

- 1. P

ग्रामसमूह	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर
			00052	केवटपुर		-	-	तुअर	-	-
			00054	खोरा	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00055	कीरतपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00056	नारायणपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00057	नयागाँव	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
			00059	सिद्धपुर		-	-	तुअर	-	-
			00066	धरमपुर	धानसिंचित	-	-	तुअर	-	-
		बीरा								
			00026	जैतपुर		-	-	तुअर	-	-
			00027	सानगुरैया		-	-	तुअर	-	-
			00029	उदयपुर		-	-	तुअर	-	-
			00030	फरस्याहा		-	-	तुअर	-	-
			00032	वीरा		-	-	तुअर	-	-
			00034	लौलास		-	-	तुअर	-	-
			00035	पिष्टा		-	-	तुअर	-	-
			00036	शहपुरा		-	-	तुअर	-	-
			00039	सुक्याहा		-	-	तुअर	-	-
			00040	राजापुर		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00041	लोढापुरवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	जिगनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00043	चन्दौरा		-	-	तुअर	-	-
			00045	रामनई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00028	बरकोला खुर्द		-	-	तुअर	-	-
		अमन गंज								
		अमानगंज								
			00029	डोभा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00030	कटकहा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00032	चिकलहाई		-	-	सोयाबीन	-	-
			00033	दौराह		-	-	सोयाबीन	-	-
			00034	गौरा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00035	अमानगंज		धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
			00036	हिनीती		-	-	सोयाबीन	-	-
			00037	मदियाकला		-	-	सोयाबीन	-	-
			00039	बम्हौरी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00040	झरकुआ		-	-	सोयाबीन	-	-
			00042	टाई		धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
			00043	मुकेहा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00044	घटारी		धानअसिंचित	-	-	-	-
			00045	महेवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	कोट		धानअसिंचित	-	-	-	-
		दारी								
			00015	बलगाहा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00016	बराँहा		-	-	सोयाबीन	-	-
			00017	रामपुर		-	-	सोयाबीन	-	-
			00018	सिरी		धानअसिंचित	-	सोयाबीन	-	-
			00019	पिपरवाह		-	-	सोयाबीन	-	-

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
			00020	जैतुपुरा			सोयाबीन			
			00021	जसवन्तपुरा		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00022	द्वारी		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00024	तारा			सोयाबीन			
			00025	बांधीकला			सोयाबीन			
			00026	झरकुआ			सोयाबीन			
			00027	गकरदगज सिमरिया			सोयाबीन			
			00028	बरबसपुरा			सोयाबीन			
		सुनवानीकला								
			00001	मधपुरा			सोयाबीन			
			00002	झिराटा			सोयाबीन			
			00003	गढीकरहिया			सोयाबीन			
			00004	सुनवानी कला			सोयाबीन			
			00005	उडला			सोयाबीन			
			00006	सिरसी			सोयाबीन			
			00007	सिंघौरा			सोयाबीन			
			00008	कमतावा	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00009	देवरा			सोयाबीन			
			00010	पुरैना			सोयाबीन			
			00011	पगरा			सोयाबीन			
			00012	बिल्हा			सोयाबीन			
			00013	जिजगांव			सोयाबीन			
			00014	गडोखर			सोयाबीन			
	गुन्नौर									
		गुन्नौर								
			00001	बरशोभा			सोयाबीन			
			00003	हिन्नीती	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00004	पाली		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00005	हरदाही			सोयाबीन			
			00006	बसौरा			सोयाबीन			
			00007	विलघाड़ी			सोयाबीन			
			00008	सिली		धानअसिंचित				
			00009	पडेरी		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00010	नचनौरा	धानसिंचित					
			00012	सुरदहा			सोयाबीन			
			00014	लुहरगांव			सोयाबीन			
			00015	सुगरहा			सोयाबीन			
			00016	रिछीडा			सोयाबीन			
			00017	गुन्नौर			सोयाबीन			
			00019	खलपुरा		धानअसिंचित				
			00020	इमलिया भूरे खां		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00021	बिहरासर			सोयाबीन			
			00023	पटनाकला		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00024	डिघौरा						
			00025	सहिलवार			सोयाबीन			
			00027	गुडवारी			सोयाबीन			

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
		सलेहा								
			00030	बंधौरा		धानअसिंचित				
			00031	बंधूर			सोयाबीन			
			00032	करहिया			सोयाबीन			
			00033	भटनवारा			सोयाबीन			
			00034	उपरवारा			सोयाबीन			
			00035	हरीरा			सोयाबीन			
			00036	सिठौली		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00037	सरहेजा		धानअसिंचित				
			00038	श्यामरडाडा			सोयाबीन			
			00039	तिदुनहाई		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00040	तिघराबुजुर्ग		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00041	मानिकपुर कलां			सोयाबीन			
			00042	भिटासी		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00045	भुलगावां		धानअसिंचित				
			00046	सलेहा		धानअसिंचित				
			00047	भटिया		धानअसिंचित				
			00048	नचने				तुअर		
			00049	गंज		धानअसिंचित				
			00051	पटनातमोली	धानसिंचित			तुअर		
			00052	फिर्जारा			सोयाबीन			
			00053	धरवारा		धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00054	कुलगावां मडै+यन				तुअर		
	देवेन्द्रनगर									
		ककरहटी								
			00004	रानीगंजपुरवा		धानअसिंचित				
			00005	रंजोरपुरवा		धानअसिंचित				
			00006	गडीपडरिया	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00007	ककरहटी		धानअसिंचित				
			00008	समाना	धानसिंचित					
			00009	देवरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन			
			00010	रनवाहा	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00011	कोहली			सोयाबीन			
			00013	बखतरी			सोयाबीन			
			00014	रानीपुरा	धानसिंचित					
			00015	देवरीगढी	धानसिंचित					
		देवेन्द्रनगर								
			00018	बडागांव			सोयाबीन			
			00019	देवेन्द्रनगर			सोयाबीन			
			00020	राजापुर	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00021	गुखौर	धानसिंचित					
			00022	बड़वारा	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00023	सुन्दरा	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00024	फुलवारी	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00025	भिलसाय	धानसिंचित		सोयाबीन			
			00026	गोल्हीपाठक	धानसिंचित		सोयाबीन			

श्रीसम	खरीफ	रा.नि.प्र.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	गन्ना	बाजरा
				00027	जिगदहा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
				00028	सिमरी मड्डयन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00029	डडवरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
				00031	रैगढ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
				00032	गिरवारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00033	सिलगी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	पन्ना										
		पन्ना									
				00004	इंटाकला	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00005	बराछ	धानसिंचित	धानअसिंचित	सोयाबीन	-	-	-
				00015	पन्ना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
				00018	कुजवन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00022	सुनहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00023	जनकपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00025	तिलगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00026	लक्ष्मीपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
				00027	रवसेहा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		वृजपुर									
				00028	बिलखुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00029	अहिरगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00030	जमुनहाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00031	इंटाखास	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00034	बडगड़ीखुर्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
				00043	उमरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पवई										
		कल्दा									
				00027	पिपरियादीन	-	-	-	तुअर	-	-
				00028	इटा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00029	विरसिंहपुर	-	धानअसिंचित	-	तुअर	-	-
				00030	कृष्णगढ	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00031	जगदीशपुरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00032	तिल्ली	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00034	कुपना	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00035	सुनवारी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00036	मुरकुड़	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00037	सगरा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00041	कल्दा	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
		पवई									
				00001	सिमरावला	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00003	कुम्हारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
				00005	महोड	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00009	खम्हरिया	-	-	-	तुअर	-	-
				00010	पटौरी	-	धानअसिंचित	-	-	-	-
				00013	पवई	-	-	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00014	गुराऊ	-	धानअसिंचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
				00016	सिमरिया गुलाब सिंह	-	-	सोयाबीन	-	-	-

मौसम	खरीफ	रा.लि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
					पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जि.प. 1	नहसील											
			00017	नारायणपुरा				सोयाबीन	-	-	-	-
			00022	मुहडिया			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	टिकरिया			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	झांझर			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	रेपुरा											
		हरदुआ पटेल										
			00011	ककरा			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
	शाहनगर											
		विसानी										
			00034	धौवापुरा			धानअसिंचित	-	तुअर	-	-	-
			00044	पोड़ी कलां			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	मैन्हा			धानअसिंचित	-	-	-	-	-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
ग्वालियर	ग्वालियर									
		उटीला								बाजरा
			00085	रीरा						बाजरा
			00134	उटीला						बाजरा
			00084	अड्डपुरा जागीर						बाजरा
			00086	बस्तरी						बाजरा
			00087	सौसा						बाजरा
			00088	बंधौली						बाजरा
			00133	भट्टपुरासानी						बाजरा
			00135	गुरी						बाजरा
			00136	टिहौली						बाजरा
			00137	टांकोली						बाजरा
		कुलैथ								बाजरा
			00033	केथा						बाजरा
			00045	जिंगसोली	धानसिंचित					-
			00032	तिघरा						बाजरा
			00034	मेहदपुर						बाजरा
			00035	सोजना						बाजरा
			00036	रामपुरा						बाजरा
			00039	ओडपुरा						बाजरा
			00040	जेवरा						बाजरा
			00041	सिंगोरा						बाजरा
			00042	कुलैथ	धानसिंचित					बाजरा
			00043	तिलघना						बाजरा
			00044	निरावली	धानसिंचित					बाजरा
		पुरानीछावनी								-
			00046	पुरानीछावनी	धानसिंचित					-
			00047	मालनपुर	धानसिंचित					-
			00048	मिलावली	धानसिंचित					-
			00051	रायरू	धानसिंचित					-
			00049	वरौआनुराबाद	धानसिंचित					-
			00050	सुसैरा	धानसिंचित					-
			00052	रूदपुरा	धानसिंचित					-
			00053	थर						बाजरा
		बडागांव								बाजरा
			00109	सुरी						-
			00112	खेरियापदमपुर	धानसिंचित					-
		महलगांव								बाजरा
			00075	पिपरीली						बाजरा
			00072	नौगांव						बाजरा
			00074	पुरासानी						बाजरा
			00073	सातऊ						बाजरा
			00076	केदारपुर						बाजरा
		मुरार								-
			00098	भदरोली	धानसिंचित					-
			00099	सेथरी	धानसिंचित					-
			00100	गिरगांव	धानसिंचित					-
			00101	बरेठा	धानसिंचित					-

		00097	चकरायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	वहोडापुर								
		00095	जलालपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00096	जम्हार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	सिरसौद								
		00127	सिरसौद		-	-	-	-	बाजरा
		00128	दुहिया		-	-	-	-	बाजरा
	सुपावली								
		00117	रतबाई	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		00118	वेरजा	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		00104	बहादुरपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00105	सरसपुरा		-	-	-	-	बाजरा
		00106	पारसेन	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		00107	सुनारपुरा माफी		-	-	-	-	बाजरा
		00114	बीरमपुरा		-	-	-	-	बाजरा
		00115	चक केशोपुर		-	-	-	-	बाजरा
		00116	सिरोली		-	-	-	-	बाजरा
		00119	गोवई	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		00120	बिल्हेटी		-	-	-	-	बाजरा
		00121	सुपावली		-	-	-	-	बाजरा
		00123	राई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00125	बिजौली		-	-	-	-	बाजरा
	हस्तिनापुर								
		00153	हस्तिनापुर		-	-	-	-	बाजरा
	घाटीगांव								
	घाटीगांव								
		00015	आरोन		-	-	-	-	सोयाबीन
		00016	चैत		-	-	-	-	बाजरा
		00018	सिमरियाटांका	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		00017	हुकूमगढ		-	-	-	-	बाजरा
		00019	महारामपुरा		-	-	-	-	बाजरा
		00020	सिरसा		-	-	-	-	बाजरा
		00021	घाटीगांव		-	-	-	-	बाजरा
		00022	पारं		-	-	-	-	सोयाबीन
	बरई								
		00023	पनिहार		-	-	-	-	सोयाबीन
		00026	बरई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	पबा		-	-	-	-	बाजरा
		00029	चराईडांग		-	-	-	-	बाजरा
		00024	नयागांव		-	-	-	-	सोयाबीन
		00025	रायपुर		-	-	-	-	सोयाबीन
		00030	सुरहेला		-	-	-	-	बाजरा
		00031	लखनपुरा		-	-	-	-	बाजरा
	मोहना								
		00008	मोहना	धानसिंचित	-	-	-	-	सोयाबीन
		00009	उम्मेदगढ		-	-	-	-	सोयाबीन
		00010	वन्हैरी		-	-	-	-	सोयाबीन
		00011	करही		-	-	-	-	सोयाबीन
		00012	पाटई		-	-	-	-	सोयाबीन
		00013	बडका गांव		-	-	-	-	सोयाबीन
		00014	समराई		-	-	-	-	सोयाबीन
	रैहट								
		00002	जखोदा		-	-	-	-	बाजरा
		00003	रैहट		-	-	-	-	सोयाबीन
		00004	चराईश्यामपुर		-	-	-	-	सोयाबीन
		00005	दौरार		-	-	-	-	सोयाबीन
		00006	सहसारी	धानसिंचित	-	-	-	-	सोयाबीन
		00007	बडागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	सोयाबीन

		00001	बागबालागांव						बाजरा
चिनौर									
	आंतरी								
		00003	बडैराभारस						बाजरा
		00006	कछौआ	धानसिंचित					
		00009	पुरी	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00011	खैरबाया	धानसिंचित					
		00012	पिपरउ	धानसिंचित					
		00004	आंतरी						बाजरा
	करहिया								
		00025	ककधा	धानसिंचित					
		00028	करहिया	धानसिंचित					
		00029	ईटमा	धानसिंचित					
		00021	मऊछ						बाजरा
		00020	धिरौली						बाजरा
		00022	बनवार	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00023	उर्वा	धानसिंचित					
	चीनौर								
		00030	मेंहगांव	धानसिंचित					
		00031	सिरसूला	धानसिंचित					
		00032	किशोरगढ	धानसिंचित					
		00033	चिनौर	धानसिंचित					
		00034	रूआ	धानसिंचित					
		00035	घरसोदी	धानसिंचित					
		00036	नौनकीसराय	धानसिंचित					
		00037	मैना	धानसिंचित					
		00038	दौनी	धानसिंचित					
		00039	दौलतपुर	धानसिंचित					
		00040	पचौरा	धानसिंचित					
	सिकरोदा								
		00001	अमरौल						बाजरा
		00002	सिकरोदा	धानसिंचित					
		00010	बडकीसराय	धानसिंचित					
		00013	मैगना	धानसिंचित					
		00015	किशनपुर	धानसिंचित					
		00014	कैथी	धानसिंचित					
		00016	भोरी	धानसिंचित					
		00017	झांकरी	धानसिंचित					
		00018	पिपरौआ	धानसिंचित					
डबरा									
	करियावटी								
		00062	लोहगढ	धानसिंचित					
		00064	सालबई	धानसिंचित					
		00075	मिलघन	धानसिंचित					
		00077	धिरौरा	धानसिंचित					
		00078	झाडौली	धानसिंचित					
		00079	करियावटी	धानसिंचित					
		00080	जतरथी	धानसिंचित					
		00081	जरावनी	धानसिंचित					
		00082	नुन्हारी	धानसिंचित					
		00076	सर्बा	धानसिंचित					
	छीमक								
		00048	चौमो	धानसिंचित					
		00049	खडवई	धानसिंचित					
		00050	बारोल	धानसिंचित					
		00065	चितावनी	धानसिंचित					
		00066	महाराजपुर	धानसिंचित		सोयाबीन			
		00067	रजियावर	धानसिंचित					

		00068	अकबाईछोटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	छीमक	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	सिरसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	खेडीरायमल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	गोवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	देवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	कोसा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	टेकनपुर								
		00001	कल्याणी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	चिरुली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	बीरमढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	अकबाई बडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	घई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	पठापनिहार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	समूदन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	टेकनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	बोना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	बेरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	डबरा								
		00041	सरनागत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	इटायल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	सिमरियाताल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	गेडोलकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	डबरा (ग्राम)	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	मगरीरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	बरोठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	अरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	करा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	चांदपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पिछोर								
		00033	पिछोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	वडेराबुजुर्ग	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	छपरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	अजयगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	शुक्लहारी								
		00022	कम्हरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	भितरवार								
	देवरीकला								
		00030	चिटौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	हसी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	बेलगढा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	धोबट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00034	देवरीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	मस्तुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	गधौटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	पलायछा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	बनियातौर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	सहारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	आदमपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	खेडाभितरवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	भितरवार								
		00001	सिंधारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	गडाजर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	चर्खा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	बरोआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	इकहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सोताखिरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	बागबई	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00016	सासन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	भितरवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	किठौंदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	श्यामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	जौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	रिछारीकला								
		00021	रही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	वेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00023	खेडाटाकां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	रिठोदन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	रुयाउ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	रिछारीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	रिछारीखुद	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	बाजना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	डोंगरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	मुशाहरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	साखनी								
		00007	बन्हैरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	बासोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	साखनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	लुहारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	पवाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	बामरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	गोहिन्द	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	कैरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	देवगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	मोहनगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	खडौंआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-